

CONSOLIDATED FINVEST & HOLDINGS LIMITED

Head Office: Plot No.12, Local Shopping Complex, Sector B-1, Vasant Kunj, New Delhi – 110070

Ph:91-11-40322100 CIN:L33200UP1993PLC015474 Email: cs_cfhl@jindalgroup.com

Website:www.consofinvest.com

CFHL/SECTT/MAR21/68

2ND March 2022

The Manager Listing,
National Stock Exchange of India Limited
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai – 400 051

Symbol: CONSOFINVT

Dear Sir / Madam,

Subject: Submission of Recommendation of the Committee of Independent Directors pursuant to Regulation 28 of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 (“SEBI Delisting Regulations”)

Ref: Initial Public Announcement dated December 01, 2021 and Detailed Public Announcement dated February 22, 2022, issued by Sundae Capital Advisors Private Limited, the Manager to the Delisting Offer on behalf of Acquirer, Soyuz Trading Company Limited, to the Public shareholders to acquire 92,01,602 (Ninety Two Lakhs One Thousand Six Hundred and Two) Equity Shares of Consolidated Finvest & Holdings Limited (the “Company”)

We enclose herewith the written reasoned recommendation approved by the Committee of Independent Directors, at its meeting held on March 01, 2022, in relation to the delisting offer, pursuant to Regulation 28 of the SEBI Delisting Regulations and the recommendation is published on March 02, 2022 in the following newspapers:

Newspaper	Language	Edition
Business Standard	English	All editions
Business Standard	Hindi	All editions
Mumbai Lakshadeep	Marathi	Mumbai edition (being regional language of the place where the Stock Exchange is situated)

We are also forwarding a copy of above recommendation to Sundae Capital Advisors Private Limited, the Manager to the Delisting Offer.

Request to kindly take the above on record in terms of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the SEBI Delisting Regulations.

Yours faithfully,
For Consolidated Finvest & Holdings Limited


Anil Kaushal
Company Secretary



Encl:

Copy of newspaper advertisements published as mentioned above

Regd. Off. : 19th K.M. Hapur-Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi, Distt. Bulandshahr (U.P.)

CONSOLIDATED FINVEST & HOLDINGS LIMITED

Corporate Identification Number (CIN): L33200UP1993PLC015474

Registered Office: 19th K.M. Hapur Bulandshahr Road P.O. Gulaothi Bulandshahr Uttar Pradesh - 203 408

Corporate Office: Plot No. 12, Sector B - 1, Local Shopping Complex Vasant Kunj, New Delhi - 110 070

Phone No.: +91 11 4032 2100

Website: www.consofinvest.com, **Email:** cs_cfhl@jindalgroup.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Consolidated Finvest & Holdings Limited (the "Company"), on the Delisting Offer made by Soyuz Trading Company Limited (the "Acquirer") along with other Promoters and Promoter Group persons / entities to the public shareholders of the Company under Regulation 28 of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, as amended (the "SEBI Delisting Regulations")

1.	Date of meeting of IDC	March 01, 2022									
2.	Name of the Company	Consolidated Finvest & Holdings Limited									
3.	Details of the Delisting Offer pertaining to the Company	<p>Voluntary Delisting Offer made by the Acquirer, along with members of promoter and promoter group, is making this Offer to acquire 92,01,602 Equity Shares representing 28.47% of the paid-up capital of the Company from the Public Shareholders from National Stock Exchange of India Limited (NSE) pursuant to Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 (“SEBI Delisting Regulations”)</p> <p>Floor Price: Rs. 152.64 per Equity Share Indicative Price: Rs. 153.00 per Equity Share</p> <p>The IDC also reviewed the following: Initial Public Announcement dated December 01, 2021 (“the “IPA””); Detailed Public Announcement published on February 22, 2022 (the “DPA””); Letter of Offer dated February 22, 2022 (the “LOF””); and Corrigendum to the Detailed Public Announcement and LOF published on February 25, 2022 (“Corrigendum”)</p>									
4.	Name of the Acquirer and PAC with the acquirer	Soyuz Trading Company Limited, alongwith the Promoter and Promoter Group of Consolidated Finvest & Holdings Limited									
5.	Name of the Manager to the Offer	<p>Sundae Capital Advisors Private Limited SEBI Regn. No.: INM000012494 Level 9, Platina, Plot No C - 59, ‘G’ Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051, Maharashtra, India Tel. No. +91 22 6700 0639 Email: cfhl.delisting@sundaecapital.com Investor Grievance e-mail id: grievances.mb@sundaecapital.com Website: www.sundaecapital.com</p>									
6.	Members of the Committee of Independent Directors	<table><tr><th>Name of the Independent Directors</th><th>Position in Committee</th></tr><tr><td>Mr. Prakash Matai</td><td>Chairperson</td></tr><tr><td>Mr. Radhey Shyam</td><td>Member</td></tr><tr><td>Mr. Sanjeev Aggarwal</td><td>Member</td></tr></table>	Name of the Independent Directors	Position in Committee	Mr. Prakash Matai	Chairperson	Mr. Radhey Shyam	Member	Mr. Sanjeev Aggarwal	Member	
Name of the Independent Directors	Position in Committee										
Mr. Prakash Matai	Chairperson										
Mr. Radhey Shyam	Member										
Mr. Sanjeev Aggarwal	Member										
7.	IDC Member’s relationship with the Company (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	<p>The members of the IDC are Independent Directors on the Board of Directors of the Company.</p> <p>Except Mr. Radhey Shyam, who holds 100 Equity Shares in the Company, none of the members of the IDC hold any Equity Shares in the Company.</p>									



		Further, none of the Members of the IDC have entered into any contract or any relationship with the Company.
8.	Trading in the Equity shares/other securities of the Company by IDC Members	<p>None of the members of IDC have traded in any of the Equity Shares / other securities of the Company during the twelve months period preceding the date of the IPA.</p> <p>None of the members of the IDC have traded in any of the Equity Shares / Securities of the Company during the period from the date of the IPA and till the date of this recommendation.</p>
9.	IDC Member's relationship with the Acquirer	<p>a. Mr. Prakash Matai is not a director on the board of the Acquirer.</p> <p>b. Mr. Radhey Shyam and Mr. Sanjeev Aggarwal, are also independent directors on the Board of the Acquirer. However, in the meeting of the Board of Directors of the Acquirer held on December 01, 2021 to consider proposal for delisting of equity shares of the Company, Mr. Radhey Shyam and Mr. Sanjeev Aggarwal, also being directors on the Board of Consolidated Finvest & Holdings Limited, whose shares are proposed to be acquired, abstained from participation and voting in the said agenda pertaining to acquisition of equity shares of Consolidated Finvest & Holdings Limited, in pursuance to the Delisting Offer;</p> <p>c. None of the members of IDC holds any equity shares or other securities of the Acquirer;</p> <p>d. Except the directorship as above, none of the members of IDC has any contracts / relationship with the Acquirer.</p>
10.	Trading in the Equity shares/other securities of the Acquirer by IDC Members	Not applicable as the Equity shares / other securities of the Acquirer are not listed on any of the stock exchanges in India and abroad.
11.	Recommendation on the Delisting offer, as to whether the offer is fair and reasonable	Based on the review of the IPA, DPA, LOF and Corrigendum issued by the Manager to the Delisting Offer on behalf of Acquirer and Certificate from Mr. Rajesh Mittal (ICAI Membership No. 072139), Partner, MGK & Associates, Chartered Accountants, (Firm Registration No.: 006359N), dated December 13, 2021 (UDIN: 21072139AAAABA7415), the members of IDC believe that the Delisting Offer is in accordance with the SEBI Delisting Regulations and to that extent, is fair and reasonable.
12.	Summary of reasons for recommendation	<p>Based on the review of the IPA, DPA and LOF and Corrigendum issued by the Manager to the Offer on behalf of Acquirer, the members of IDC have considered the following reasons provided by the Acquirer in the IPA for making recommendations:</p> <p>The Indicative Price of Rs. 153 is higher than the volume weighted average price of the Equity Shares of the Company during the period of 60 trading days immediately preceding the date of the Board Meeting in which the delisting proposal was considered and approved.</p> <p>The IDC, however, suggests that Public Shareholders of the Company should independently evaluate the Delisting Offer, market performance of the Company and take informed decisions in respect of the Delisting Offer. The market price of the Company Scrip has been trading at a premium to the floor price and indicative price since last few trading days.</p> <p>This statement of recommendations will be available on the website of the Company at www.consofinvest.com.</p>



14.	Disclosure of the Voting Pattern	The recommendations were unanimously approved by the members of IDC
15.	Details of Independent Advisors, if any.	None
16.	Any other matter(s) to be highlighted	None

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise and includes all the information required to be disclosed by the Company under the SEBI Delisting Regulations.

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of Consolidated Finvest & Holdings Limited


Prakash Matai
Chairperson



Place: New Delhi
Date: March 01, 2022

NSE FMCG index hits 9-month low, but metal firms soar

Russia-Ukraine conflict could hurt FMCG firms' earnings, compress demand: Experts


KRISHNA KANT
Mumbai, 1 March

The Russia-Ukraine crisis and the resulting rise in commodity prices has begun to weigh on consumer stocks while it has turned the fortunes of metals and mining stocks. The combined market capitalisation of NSE FMCG Index has slumped to a nine-month low, while the BSE Metal Index's market capitalisation is now at a six-month high.

The BSE Metal index, which tracks the share prices of the country's top 10 metal and mining stocks – such as Tata Steel, JSW Steel, Hindalco, Vedanta, Coal India, NMDC, and Hindustan Zinc – closed Monday with market cap of ₹9.53 trillion, up 7.3 per cent from ₹8.88 trillion at the end of January.

In the same period, the combined market cap of fast-moving consumer goods stocks in the NSE FMCG Index have declined 2.8 per cent to ₹16.07 trillion from ₹16.53 trillion at the end of January. In fact, the index is now down 12.6 per cent from its peak market cap of ₹18.4 trillion reached at the end of September, while the BSE Metal index has risen 10 per cent since its recent low market cap of ₹8.69 trn in November. (See adjoining chart)

The NSE FMCG Index tracks the market cap of the top 15 stocks in the sector like Hindustan Unilever, ITC, Nestlé India, Britannia Industries, Dabur, Godrej Consumer, Tata Consumer, Colgate Palmolive, and United Spirits.



Analysts expect this divergence to continue. "I foresee a big downgrade in the corporate earnings for FY22 (financial year 2021-22) and FY23 due to the recent upheaval in the global economy. The rise in energy and metal prices could severely dent corporate margins, especially for consumer goods manufacturers in the forthcoming quarters," said Dhananjay Sinha, managing director and chief Strategist of JM Institutional Equity.

In contrast, the rise in commodity prices due to the Russia-Ukraine conflict would translate into record high revenues and profits for metals and mining companies in the forthcoming quarters.

The London Metal Exchange Index (LMEX) has risen 4.6 per cent since the end of January, while the benchmark Brent crude is up 15.7 per cent since the end of January. The LMEX tracks the price of six most common base

metals such as aluminum, copper, zinc, lead, tin and nickel.

The rise in commodity and energy prices will also raise costs for households, forcing many to cut back on expenses. This is expected to reduce consumer demand and weigh on the revenues and earnings of FMCG companies.

"The ramifications of the conflict on the Indian economy will be felt via higher global commodity prices as India is a net commodity importer. The immediate impact on the Indian economy will be felt through inflation, an increase in current account deficit and rupee depreciation," write analysts at India Ratings & Research.

All these macroeconomic factors are headwinds for consumer demand and this explains investors' bearish outlook on FMCG stocks.

Analysts also say the conflict is likely to disrupt the global supply of agricultural commodities, pushing their prices up as well.

"Besides being major energy exporters, Russia and Ukraine are also major exporters of agriculture commodities such as wheat, corn, barley and sunflower oil, and industrial metals such as nickel, copper and platinum. Suspension in air or port movements are likely to add to the recent buoyancy in prices of these commodities," writes Radhika Rao, senior economist at DBS Group Research.

This could hit the margins of processed food manufacturers such as Britannia, Nestlé, and ITC.

HUL hikes prices by 3-13% in Feb

Increases were announced in multiple tranches through the month

SHARLEEN D'SOUZA
Mumbai, 1 March

Hindustan Unilever (HUL) hiked prices across its portfolio of products by 3-13 per cent in multiple tranches in February, with the sharpest increase of 13 per cent seen in the 100 gm Lux soap pack, the price of which increased to ₹35 from ₹31 earlier.

The price of the 125 gms soap pack of Lifebuoy was hiked from ₹31 to ₹33, a rise of 6.5 per cent. In January, the company had hiked the price of the same stock-keeping unit from ₹29 to ₹31.

A distributor of the company said on the condition of anonymity that throughout February, the company initiated price increases across its portfolio of products. It raised prices even in January in the 3-20 per cent range across Wheel, Surf Excel, and Lifebuoy brands.

The price increases come on the back of constant rise in raw material costs.

In the latest round of



hikes and among the products that have seen least increase, HUL has upped the price of its Dove Shampoo (180 ml) stock keeping unit by 3 per cent to ₹165.

It also increased the price of Kissan jam (500 gms) by 3.2 per cent to ₹160 and Horlicks (1 kg pack) from ₹375 to ₹390, an increase of 4 per cent.

Likewise, Pepsodent toothpaste (80 gms pack) is costlier by 4 per cent at ₹52 and Surf Excel (one kg pack) has increased 4 per cent. Vim

Bar also saw an increase of 4 per cent to ₹26.

Another distributor said price increases were seen in bundles of Lux soap packs that rose from ₹150 to ₹160.

In November, HUL increased prices in the range of 1-33 per cent across its products. It is not the only fast-moving consumer goods player to raise prices, and most other companies have also initiated price increases.

Effective March 1, Amul has also hiked the price of a litre of milk by ₹2 and Parag

Product	% rise
Lux 100gm from ₹ 31 to ₹ 35	12.9
Lifebuoy – 125gm from ₹ 31 to ₹ 33	6.4
Horlicks 1kg from ₹375 to ₹ 390	4.0
Pepsodent toothpaste 80gm from ₹ 50 to ₹ 52	4.0
Surf Excel 1 kg pack from ₹ 210 to ₹ 218	3.8
Kissan Jam 500gm from ₹ 155 to ₹160	3.2
Dove shampoo bottle 180ml from ₹ 160 to ₹ 165	3.1

Source: HUL distributors

Milk Foods has followed suit.

Dabur India's Chief Executive Officer Mohit Malhotra recently told *Business Standard* that the inflation in Q3 was truly unprecedented at over 13 per cent.

"There is continued inflation in hydrocarbon derivatives, paper-based packing material, raw honey, edible oils and some key spices that we use. We have offset part of the inflation impact through calibrated price increases of around 5 per

cent in key products across health supplements, ayurvedic OTC, ethicals, hair oils and toothpaste, besides through cost-saving initiatives," Malhotra said.

Since the end of December, the price of Brent crude oil has jumped from around \$75 a barrel to over \$103 a barrel currently, an increase of more than 37 per cent. Oil prices have an impact on transport, logistics and packaging expenses of companies across sectors.

6 states, 3 sectors get most of CSR spend

More developed states preferred; education, health care, rural development account for 59.9%

ISHAAN GERA
New Delhi, 1 March

Corporate social responsibility (CSR) contributions rose steadily before the pandemic, but were skewed towards three sectors and more developed states, an analysis of the data reveals.



The government has mandated a new disclosure framework for CSR from this year to increase contributions from companies and make them more compliant.

Companies have to file a detailed report for financial year 2020-21 (FY21) highlighting expenditure on ongoing projects and new projects, creation of capital assets, details of the impact assessment reports, among other things.

An analysis of the data from the government's CSR dashboard shows that in FY21, companies spent ₹20,360 crore on CSR commitments. The year before that, they had spent ₹24,864 crore, a 24 per cent rise over the previous year. In the last six years, the CSR contribution growth has averaged at 14 per cent.

The new framework expects to increase this further as corporate contributions are nowhere near the 2 per cent net profit mark as mandated by the law. But the analysis reveals that a more significant issue pertains to rechanneling of investments.

Investments are skewed towards three sectors — Education, health-care, and rural development. And, contributions to these sectors have been increasing.



The sectors accounted for 59.9 per cent of total spending on CSR in FY21, compared with 54.6 per cent of total spend in FY15.

While education's share has declined, health care has assumed importance. Education accounted for 25.7 per cent of total CSR spending in FY15, which increased to 33.7 per cent in FY18, but has since fallen to 24.8 per cent in FY21. In contrast,

health care spending has increased from 16.2 per cent in FY18 to 26.9 per cent in FY21.

Moreover, most of the funds are flowing to the developed states rather than those that require the funds for development.

Maharashtra, for instance, accounts for 13 per cent of the total spending. Six states – Andhra Pradesh, Delhi, Gujarat, Karnataka, Maharashtra

and Tamil Nadu – accounted for over one-third of total CSR spending in FY21.

The share of these six states has declined from 42.4 per cent in FY17. But the share of more populous and poor states like UP, Bihar, Chhattisgarh and Jharkhand has remained negligible. These four states accounted for just 6 per cent of total CSR spending in FY21.

Adani makes foray into media business with Quintillion stake

REUTERS
1 March

The Adani Group is taking a minority stake in digital business news platform Quintillion, the companies said in a statement on Tuesday, marking billionaire Gautam Adani's first bet in the news industry. The relationship between Adani Media Ventures and Quintillion "marks a strong beginning of Adani Group's foray into Indian media," the statement said, without quantifying the stake Adani was taking.

The news was first reported in September last year. The proposed deal excludes other popular digital media properties affiliated with the Quint such as *The News Minute* and *Youth Ki Awaaz*, the companies said.

Bloomberg Media in a separate statement said it was ending its equity joint venture



with Quintillion in India, which together ran the business news website *BloombergQuint*.

It was not immediately clear whether Adani picked up Bloomberg's stake.

Gautam Adani is one of Asia's richest alongside Mukesh Ambani, chairman of oil-to-telecom conglomerate Reliance Industries, which also has interest in India's vibrant media industry.

With Tuesday's move, Adani is set to face off with Reliance which owns India's Network18 that runs several business TV news channels and online platforms.

Adani Group has a market capitalization of over \$150 billion, comprising seven publicly listed companies which are in the businesses of operating airports and ports, power generation and transmission, coal and gas trading.

Shriram Automall India auctions over 7,900 pre-owned vehicles, assets

Shriram Automall India on Tuesday said it auctioned over 7,900 pre-owned vehicles and other assets in a single day and processed transactions worth over ₹215 crore from over 14,500 listings at its annual auction event, SAMIL utsav. SAMIL Utsav is a phygital format auction, conducted by the platform every year on February 26, the company said in a statement. Over 14,500 pre-owned vehicles and equipment across segments such as cars, trucks, construction and farm equipment, two and three-wheelers from a full spectrum of sellers across consumers, banks, NBFCs, insurance companies, OEMs and dealers, leasing, rental and aggregator firms, among others, were displayed and ramped, it said. PTI

पंजाब सिंद बैंक
Punjab & Sind Bank
(a part of India Government)
H.D. Home Resources Development Deptt.
9th Floor, 21 Rajendra Place, New Delhi- 110008
Phone : 011-25716407, Email: h.d.hrd@psb.co.in
Where service is a way of life

TENDER NOTICE
Sealed Tenders are invited for procurement of Directors and Officers Liability Insurance Policy for Directors & Officers of Punjab & Sind Bank. Relevant details, RFP may be downloaded from Bank's website <https://punjabandsindbank.co.in>
Any further changes related to the said tender shall be published on Bank's website only.
Dy. General Manager (HRD)

CONSOLIDATED FINVEST & HOLDINGS LIMITED									
Corporate Identification Number (CIN) : L33200UP1993PLC015474 Registered Office: 19 th K.M. Hapur Bulandshahr Road P.O. Gulaathi Bulandshahr Uttar Pradesh - 203 408 Corporate Office: Plot No. 12, Sector B - 1, Local Shopping Complex Vasant Kunj, New Delhi - 110 070 Phone No.: +91 11 4032 2100, Website: www.consofinvest.com , Email: cs_cfil@jindagroup.com									
Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Consolidated Finvest & Holdings Limited (the "Company"), on the Delisting Offer made by Soyuz Trading Company Limited (the "Acquirer") along with other Promoters and Promoter Group persons / entities to the public shareholders of the Company under Regulation 28 of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, as amended (the "SEBI Delisting Regulations").									
1. Date of meeting of IDC	March 01, 2022								
2. Name of the Company	Consolidated Finvest & Holdings Limited								
3. Details of the Delisting Offer pertaining to the Company	Voluntary Delisting Offer made by the Acquirer, along with members of promoter and promoter group, is making this Offer to acquire 92,01,602 Equity Shares representing 28.47% of the paid-up capital of the Company from the Public Shareholders from National Stock Exchange of India Limited (NSE) pursuant to Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 ("SEBI Delisting Regulations") Floor Price: Rs. 152.64 per Equity Share Indicative Price: Rs. 153.00 per Equity Share The IDC also reviewed the following: Initial Public Announcement dated December 01, 2021 (the "IPA"); Detailed Public Announcement published on February 22, 2022 (the "DPA"); Letter of Offer dated February 22, 2022 (the "LOF"); and Corrigendum to the Detailed Public Announcement and LOF published on February 25, 2022 ("Corrigendum")								
4. Name of the Acquirer and PAC with the acquirer	Soyuz Trading Company Limited, alongwith the Promoter and Promoter Group of Consolidated Finvest & Holdings Limited								
5. Name of the Manager to the Offer	Sundae Capital Advisors Private Limited SEBI Regn. No.: INM000012494 Level 9, Platina, Plot No C - 59, 'G' Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051, Maharashtra, India Tel. No. +91 22 6700 0839 Email: cfhl.delisting@sundaecapital.com Investor Grievance e-mail id: grievances.mrb@sundaecapital.com Website: www.sundaecapital.com								
6. Members of the Committee of Independent Directors	<table><tr><th>Name of the Independent Directors</th><th>Position in Committee</th></tr><tr><td>Mr. Prakash Matai</td><td>Chairperson</td></tr><tr><td>Mr. Radhey Shyam</td><td>Member</td></tr><tr><td>Mr. Sanjeev Aggarwal</td><td>Member</td></tr></table>	Name of the Independent Directors	Position in Committee	Mr. Prakash Matai	Chairperson	Mr. Radhey Shyam	Member	Mr. Sanjeev Aggarwal	Member
Name of the Independent Directors	Position in Committee								
Mr. Prakash Matai	Chairperson								
Mr. Radhey Shyam	Member								
Mr. Sanjeev Aggarwal	Member								
7. IDC Member's relationship with the Company (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	The members of the IDC are Independent Directors on the Board of Directors of the Company. Except Mr. Radhey Shyam, who holds 100 Equity Shares in the Company, none of the members of the IDC hold any Equity Shares in the Company. Further, none of the Members of the IDC have entered into any contract or any relationship with the Company.								
8. Trading in the Equity shares/other securities of the Company by IDC Members	None of the members of IDC have traded in any of the Equity Shares/other securities of the Company during the twelve months period preceding the date of the IPA. None of the members of the IDC have traded in any of the Equity Shares / Securities of the Company during the period from the date of the IPA and till the date of this recommendation.								
9. IDC Member's relationship with the Acquirer	a. Mr. Prakash Matai is not a director on the board of the Acquirer. b. Mr. Radhey Shyam and Mr. Sanjeev Aggarwal, are also independent directors on the Board of the Acquirer. However, in the meeting of the Board of Directors of the Acquirer held on December 01, 2021 to consider proposal for delisting of equity shares of the Company, Mr. Radhey Shyam and Mr. Sanjeev Aggarwal, also being directors on the Board of Consolidated Finvest & Holdings Limited, whose shares are proposed to be acquired, abstained from participation and voting in the said agenda pertaining to acquisition of equity shares of Consolidated Finvest & Holdings Limited, in pursuance to the Delisting Offer; c. None of the members of IDC holds any equity shares or other securities of the Acquirer; d. Except the directorship as above, none of the members of IDC has any contracts/ relationship with the Acquirer.								
10. Trading in the Equity shares/other securities of the Acquirer by IDC Members	Not applicable as the Equity shares/other securities of the Acquirer are not listed on any of the stock exchanges in India and abroad.								
11. Recommendation on the Delisting offer, as to whether the offer is fair and reasonable	Based on the review of the IPA, DPA, LOF and Corrigendum issued by the Manager to the Delisting Offer on behalf of Acquirer and Certificate from Mr. Rajesh Mittal (ICAI Membership No. 072139), Partner, MGK & Associates, Chartered Accountants, (Firm Registration No.: 006359N), dated December 13, 2021 (UDIN: 21072139AAAB7415), the members of IDC believe that the Delisting Offer is in accordance with the SEBI Delisting Regulations and to that extent, is fair and reasonable. The Indicative Price of Rs. 153 is higher than the volume weighted average price of the Equity Shares of the Company during the period of 60 trading days immediately preceding the date of the Board Meeting in which the delisting proposal was considered and approved. The IDC, however, suggests that Public Shareholders of the Company should independently evaluate the Delisting Offer, market performance of the Company and take informed decisions in respect of the Delisting Offer. The market price of the Company Scrip has been trading at a premium to the floor price and indicative price since last few trading days. This statement of recommendations will be available on the website of the Company at www.consofinvest.com .								
14. Disclosure of the Voting Pattern	The recommendations were unanimously approved by the members of IDC								
15. Details of Independent Advisors, if any.	None								
16. Any other matter(s) to be highlighted	None								
To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise and includes all the information required to be disclosed by the Company under the SEBI Delisting Regulations. For and on behalf of the Committee of Independent Directors of Consolidated Finvest & Holdings Limited Sd/- Prakash Matai Chairperson									
Place: New Delhi Date : March 01, 2022									

रूस का नुकसान भारत का फायदा

अगर रूसी शेयरों को वैश्विक सूचकांकों से बाहर निकाला जाता है तो देसी शेयरों में 60 करोड़ डॉलर से 2.4 अरब डॉलर तक का निवेश आ सकता है

समी मोडक
मुंबई, 1 मार्च

यू क्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देश रूस को वित्तीय चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया है जो रूसी शेयरों में निवेश पर पाबंदी लगाता हो लेकिन वैश्विक सूचकांक प्रदाताओं एफटीएसई और एमएससीआई ने अपने-अपने सूचकांकों से रूस के शेयरों को बाहर निकालने पर विचार शुरू कर दिया है।

ऐसे कदम से रूस से अरबों डॉलर की निकासी हो सकती है। इस निकासी का एक हिस्सा भारत समेत अन्य उभरते बाजारों का रुख कर सकता है। अगर रूस को इन सूचकांकों से बाहर निकाला जाता है तो एमएससीआई ईएम व अन्य अहम सूचकांकों में भारत का भारांक बढ़ेगा।

सोमवार देर शाम एमएससीआई ने फंड मैनेजर्स से अंतरराष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों के लिए रूसी इक्विटी बाजार तक पहुंच और निवेश क्षमता की मौजूदा स्थिति पर फीडबैक मांगा।

सूचकांक प्रदाता ने कहा कि वह रूस के इक्विटी बाजार तक पहुंच और निवेश की क्षमता की नजदीकी निगरानी कर रहा है।

रूस पर वित्तीय पाबंदी लगाई गई है मसलन उसके बैंकों को रिविप्ट सिस्टम से अलग कर दिया है। रूस के शेयरों में निवेश में जो बाधा है उनमें रूबल को विदेशी

भारत की तरफ होगा निवेश का रुख



■वैश्विक सूचकांक प्रदाताओं एफटीएसई और एमएससीआई ने अपने-अपने सूचकांकों से रूस के शेयरों को बाहर निकालने पर विचार शुरू कर दिया है

■25 फरवरी को एमएससीआई ईएम में रूस का भारांक 2.66 फीसदी था, जो आठवां सबसे बड़ा आंकड़ा है

■चीन व ताइवान इस सूची में सबसे ऊपर है और उनका भारांक क्रमशः 29.55 फीसदी व 15.86 फीसदी है

■भारत का भारांक 12.55 फीसदी है, जो तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है

मुद्राओं में परिवर्तनीयता में गिरावट, मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज बंद होना और प्रतिभूतियों की बिक्री पर पाबंदी शामिल है।

सार्वजनिक टिप्पणी आमंत्रित करने वाले एमएससीआई के नोट में कहा गया है, इन घटनाक्रम को देखते हुए एमएससीआई रूस के इक्विटी बाजार के साथ एमएससीआई इंडेक्स के जुड़ाव की बाबत सही उपचार पर टिप्पणी मांग रहा है और इसमें एमएससीआई उभरते बाजारों से रूसी सूचकांकों के संभावित पुनर्वागीकरण का मामला भी शामिल है।

सूचकांकों के अवयव पर नजर रखने वाले विश्लेषकों ने कहा कि वे स्थिति पर नजदीकी नजर रखे हुए हैं ताकि रूस के इससे अलग

होने के असर का आकलन किया जा सके।

स्मार्टकर्मा में लेख लिखने वाले विश्लेषक ब्रायन फ़िए्ट्स ने पिछले हफ्ते नोट में कहा है, अगर रूस को एमएससीआई स्टैंडर्ड व स्मॉलकैप सूचकांकों से अलग किया जाता है तो पैसिव ट्रैकर्स को करीब 15.74 अरब डॉलर के शेयर बेचने होंगे। यह निकासी 23 फरवरी के आधार पर है और मौजूदा प्रवाह करीब 30 फीसदी कम होगा।

25 फरवरी को एमएससीआई ईएम में रूस का भारांक 2.66 फीसदी था, जो आठवां सबसे बड़ा आंकड़ा है। चीन व ताइवान इस सूची में सबसे ऊपर है और उनका भारांक क्रमशः 29.55 फीसदी व 15.86 फीसदी है। भारत का भारांक

12.55 फीसदी है, जो तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है।

एफटीएसई ने भी एक नोट जारी कर रूस को लेकर चिंता को रेखांकित किया है।

पिछले हफ्ते आईआईएफएल इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज के उपाध्यक्ष श्रीराम वेलायुधन ने एक नोट में कहा था, एक घटनाक्रम के तहत अगर रूस की निकासी का कदम उठाया जाता है तो एमएससीआई इंडिया को फायदा होगा क्योंकि इस इलाके में संभावित तौर पर 1.7 अरब डॉलर का निवेश आ सकता है। अगर एफटीएसई ग्लोबल इक्विटी सूचकांक भी ऐसा ही कदम उठाता है तो इससे 0.7 अरब डॉलर का और निवेश आ सकता है।

सेबी की नई प्रमुख की राह में चुनौतियां अपार

समी मोडक
मुंबई, 1 मार्च

माधवी पुरी बुच बुधवार को सेबी चेयरमैन की कमान संभालने जा रही हैं। अक्टूबर 2021 में पूर्णकालिक सदस्य की जिम्मेदारी से मुक्त हुई माधवी को विभिन्न समस्याओं के समाधान और आगामी चुनौतियों की अच्छी समझ है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने नई बॉस बनने से पहले उद्योग के विभिन्न दिग्गजों और सेबी के अधिकारियों से कुछ चुनौतियों के बारे में बातचीत की, जिनमें से कुछ पर यहां प्रकाश डाला जा रहा है:

एनएसई संकट का निपटान

एनएसई से संबंधित विवाद 6 साल पुराने हैं, लेकिन इनका समाधान की संभावना से इनकार किया जा सकता है। एनएसई की पूर्व बॉस चित्रा रामकृष्ण के खिलाफ बाजार नियामक सेबी द्वारा पिछले महीने जारी एक आदेश में कहा गया कि उन्होंने हिमालयन योगी को गोपनीय जानकारी जारी की थी जिससे काफी हलचल मच गई थी और विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों को जांच के लिए आगे आना पड़ा। पुरी बुच इस मामले को आराम से देखेंगी जिससे कि सेबी को अन्य महत्वपूर्ण मामलों के लिए भी ध्यान देने में समय मिल सके।

उतार-चढ़ाव का प्रबंधन

जहां कोविड का बुरा समय पीछे बीत चुका है, लेकिन अस्थिरता का दौर फिर से शुरू हो गया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा इस महीने ब्याज दरों में संभावित वृद्धि और भूराजनीतिक तनाव बढ़ने से बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ा है। प्रमुख सूचकांक पहले ही अपने ऊंचे स्तरों से दो अंक की गिरावट दर्ज कर चुके हैं। धारणा में और कमजोरी आने से बाजार में खुदरा निवेश प्रवाह प्रभावित हो सकता है। नई सेबी मुख्या को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी प्रणालियां और प्रक्रियाएं आसानी से काम करें और उतार-चढ़ाव से बाजार को ज्यादा नुकसान न पहुंचे।



माधवी पुरी बुच, नवनियुक्त चेयरपर्सन, सेबी

कार्य संतुलन

किसी भी सेबी मुख्या के लिए कार्य को संतुलित बनाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। आसान नियमन से हेरफेर का जोखिम बढ़ता है। दूसरी तरफ, ज्यादा सख्ती से हितधारकों से भी प्रतिक्रिया को बढ़ावा मिलता है। इसका ताजा उदाहरण भारतीय उद्योग जगत में चेयरमैन एवं प्रबंधन निदेशक पद को अलग करना रहा है। कंपनियों को अनुपालन के लिए चार साल से अधिक का समय दिए जाने के बावजूद सेबी को भारी विरोध के बाद नियम वापस लेना पड़ा था। नए नियम तैयार करना और मौजूदा नियमों में बदलाव लाना बाजार विकास का हिस्सा है, लेकिन यह कार्य उतना आसान नहीं है, जितना लग रहा है।

प्रबंधन में बदलाव

ऐसे समय में जब सेबी द्वारा विभिन्न मामलों पर तेजी से काम किए जाने की संभावना है, नियामक को प्रमुख पदों के खाली होने की समस्या का भी सामना करना पड़ा है। नियामक मौजूदा समय में सिर्फ दो पूर्णकालिक सदस्यों (डब्ल्यूटीएम) के साथ काम कर रहा है। इसके अलावा, नियामक कार्यकारी निदेशकों को जोड़ने की भी संभावना तलाश रहा है। महामारी की वजह से पैदा हुई समस्या और सदस्यों के अभाव की वजह से प्रतिभूति अपीलीय पंचाट (सेट) के समक्ष मामलों का ढेर लग रहा है। इस महीने

कंपनी समाचार 3

के शुरू में सरकार ने तीसरा सदस्य नियुक्त किया। पुरी बुच को पर्याप्त मानव श्रम और समर्थन की जरूरत होगी।

ब्रोकर्स, एमएफ, एफपीआई को चिंता

भारतीय उद्योग जगत द्वारा जोर दिए जाने से उन्हें सख्त प्रशासनिक नियम ढालने में मदद मिली। म्युचुअल फंडों, एफपीआई और ब्रोकर उतने भाग्यशाली नहीं थे क्योंकि नियामक ने उन्हें राहत प्रदान नहीं की। ब्रोकर्स को शेयर गिरवी और मार्जिन फंडिंग से जुड़े नए नियमों से जूझना पड़ रहा है। म्युचुअल फंडों का मुनाफा प्रभावित हुआ है, क्योंकि सेबी ने निवेश की लागत घटाने की कोशिश की और उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धा से जूझने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

आईपीओ को लेकर चिंता

वर्ष 2021 में आईपीओ के जरिये करीब 1.1 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड पूंजी जुटाई गई। हालांकि सेकंडरी बाजार में अस्थिरता ने उन्हें सूचीबद्ध कंपनियों (खासकर स्टार्टअप) के शेयरों में भारी गिरावट से आईपीओ की राह अनिश्चितता के बादल दिख रहे हैं। सेबी ने नए जमाने की कंपनियों के शेयरों के मूल्यों को और ज्यादा तर्कसंगत बनाने के मकसद से नए मानक प्रस्तावित किए हैं।

स्वयं के बॉस का नियमन

सेबी को अक्सर उस वक्त अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है जब बात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) के नियमन की हो। इनमें से कई के पास नए शेयर जारी करते वक्त पर्याप्त सार्वजनिक प्लोट और अन्य संबंधित नियम नहीं होते। सेबी को सरकार या पीएसयू को दंडित करने के अन्य तरीके पर विचार करना आसान नहीं है। बीमा दिग्गज एलआईसी की सूचीबद्धता से मामला और उलझता दिख रहा है जो महज 5 प्रतिशत प्लोट के साथ सूचीबद्ध हो रही है और इसे बढ़ाकर पांच साल के अंदर 25 प्रतिशत करना होगा।

एसबीआई मल्टीकैप

एनएफओ ने जुटाए करीब

8,000 करोड़ रुपये

सोमवार को बंद हुए एसबीआई मल्टीकैप फंड ने एनएफओ के जरिए 7,500-8,000 करोड़ रुपये संग्रहित किए हैं। उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि मल्टीकैप योजनाओं

में संग्रह का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

ओपन एंडेड इक्विवटी योजना एसबीआई मल्टीकैप फंड लार्ज, मिड और स्मॉलकैप

कंपनियों में निवेश करेगा, जिसकी पहचान मजबूत शोध प्रक्रिया के जरिए की जाएगी। एनएफओ 14 फरवरी को खुलकर 28 फरवरी, 2022 को बंद हुआ। *बीएस*

फॉर्म नं. आईएनसी-26
(कम्पनीज (समामेयन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में) एक राष्ट्र के दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए समाचारपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए विज्ञापन
केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक
उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कम्पनी (समावेश) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खण्ड (ए) के मामले में और
मर्सर कंसल्टिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ("कम्पनी") इसका पंजीकृत कार्यालय "70/39 बी, दूसरी मंजिल, केएलजे कॉम्प्लेक्स, मोतीनगर पुलिस स्टेशन के सामने, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015, दिल्ली" के मामले में मर्सर कंसल्टिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड , याचिकाकर्ता
एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली" से कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "महाराष्ट्र राज्य" में हस्तांतरित करने में सक्षम होने के लिए गुरुवार, 20 जनवरी, 2022 को आयोजित कम्पनी की असामान्य साधारण बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सुनिश्चितीकरण के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक को दी गई शक्ति) के समक्ष आवेदन करना प्रस्तावित किया है।
कोई व्यक्ति जिसकी अभिरुचि कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होती हो, तो वह अपनी अभिरुचि की प्रकृति और विरोध के आधार को बताते हुए हलफनामे द्वारा समर्थित अपने विरोध को निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर एससीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) या पंजीकृत डाक द्वारा आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकृत /निगमित पते पर एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को भेज या डिलीवर कर सकते हैं।
"70/39 बी, दूसरी मंजिल, केएलजे कॉम्प्लेक्स, मोतीनगर पुलिस स्टेशन के सामने, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015, दिल्ली"
मर्सर कंसल्टिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के लिए व उन्हीं की ओर से हस्ता. /- <div> <div> <div>नाम : मनोज कुमार</div> <div>पद : निदेशक</div> <div>डीआरएन : 06455748</div> </div> </div>
दिनांक : 02 मार्च, 2022
स्थान : गुरुग्राम

<div> <div></div> <div>ऋण वसूली न्यायाधिकरण-1, दिल्ली</div> </div>	
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 <p>आए/795/2020</p>	
दि साऊथ इंडियन बैंक लि.	आवेदक
मैसर्स सुगर ब्यूगर फूड्स एलएलपी एवं अन्य प्रति.	बनाम
मैसर्स सुगर ब्यूगर फूड्स एलएलपी <div> <div><div>पाकेट एन-1, सेक्टर-5, बबाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110039</div></div> <ul style="list-style-type: none">1. मैसर्स सुगर ब्यूगर फूड्स एलएलपी </div>	प्रतिवादीनग्न
श्री अरुण कुमार <div> <div><div>प्लॉट नं. 53, विकास विहार गली नं. 10, चंद्र विहार नीलोटी एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110041</div></div> <ul style="list-style-type: none">3. श्री नितिन खन्ना </div>	
श्री नितिन खन्ना <div> <div><div>एफ-1911, तीसरी मंजिल, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के निकट, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018</div></div> <ul style="list-style-type: none">4. श्री राजेश मल्होत्रा </div>	
श्री राजेश मल्होत्रा <div> <div><div>749, श्री ब्लॉक मोंगोलपुरी नं. ब्लॉक नाँथ वेंस्ट दिल्ली, नई दिल्ली-110063</div></div> <ul style="list-style-type: none">5. श्री रवि कोहली </div>	
श्री-2बी/73बी, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 <div> <div><div>चूंकि ऊपर नामित आवेदक ने आपके खिलाफ रु. 53.26,381.52 (रुपये तिरपन लाख छब्बीस हजार तीन सौ इक्कासी एवं पैसे बानन मात्र) की वसूली के लिए एक मामला दायर किया है तथा चूंकि न्यायाधिकरण की संतुष्टि के अनुसार यह पाया गया है कि यह आपको साधारण तरीके से इसे सेवित करना संभव नहीं है। फलस्वरूप, विज्ञापन के जरिए यह सूचना दी जाती है, जिसमें आपको माननीय पीजीयक के समक्ष दिनांक 17.03.2022 को सुबह 10.30 बजे उपस्थित होने का निर्देश जारी किया जाता है (अधिक विवरण के लिए कृपया डीआरटी वेबसाइट: www.etribunal.gov.in देखें दूरभाष सं.: 011-23748473)।</div></div> <div> <div><div>यह ध्यान दें कि आपके द्वारा इस न्यायाधिकरण के समक्ष ऊपर उल्लिखित तारीख को उपस्थित रहने में विफल रहने पर आपको अनुपस्थिति में संबंधित मामले पर सुनवाई की जाएगी एवं उस पर निर्णय प्रदान कर दिया जाएगा।</div></div> <div>जारी महामारी की परिस्थिति के कारण, सभी तरह के मामले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निष्पादित किया जाएगा तथा इस उद्देश्य के लिए:-</div> <div> <div>(i) सभी अधिकाओं/वादी को Cisco Webex एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा।</div> <div>(ii) इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख के लिए "बैठक की आईडी" एवं "पासवर्ड" पीजीयक/वसूली अधिकारी-I तथा वसूली अधिकारी-II द्वारा ग्रहण किया जाएगा, जो सार्वजनिक सूचना शीर्षक के अधीन डीआरटी आधिकारिक पोर्टल यानी "drt.gov.in" पर अगली तारीख से एक दिन पहले उपलब्ध होगा।</div> </div> </div></div>	
(iii) किसी भी तरह की अव्यावश्यक परिस्थिति में अधिवक्ता/वादी संबंधित अधिकारी से दूरभाष नं. 011-23748473 पर सम्पर्क कर सकते हैं।	
<div>मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायाधिकरण की मुहर के अधीन 12 जनवरी, 2022 को जारी।</div> <div>अधिक जानकारी के लिए प्रतिवादी नीचे उल्लेखित दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं।</div> <div>श्री अमित के. डार</div> <div>माननीय पीजीयक</div> <div>डीआरटी-1, नई दिल्ली</div> <div>दूरभाष सं.: 011-23748473</div> <div>ईमेल: drt1delhi-cis@nic.in</div>	
<div>न्यायाधिकरण के आदेशानुसार</div> <div>कृते पंजीयक</div> <div>ऋण वसूली न्यायाधिकरण-1, दिल्ली</div>	

IDBI BANK		आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, रिटेल रिकवरी, ई-1, पहली मंजिल, वीडियोकॉन टावर, इंडेक्वाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, फोन नं. 011-66083056, 66084896, 660883075			
प्रतीकात्मक कब्जा सूचना					
<p>वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम-3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है। बैंक ने निम्नलिखित ऋणी/सह-ऋणी/जमानतदाता को उनके नाम के सामने वर्णित तिथि को मांग सूचना पत्र जारी किया था जिसके तहत उपर्युक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से साठ दिनों के अंदर धनराशि चुकाने के लिए कहा गया था। चूंकि वे धनराशि को चुकाने में विफल रहे थे, इसलिए, उन्हें एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने ऋणी के नाम के सामने उल्लिखित तिथि को उपर्युक्त नियमवाल्याओं के नियम 8 के साथ पठित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अधीन उन्हें प्रदान किए गए अधिकारों के अनुसरण में यहाँ नीचे उल्लिखित संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है।</p> <p>विशेष रूप से ऋणी एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि संपत्ति के साथ किसी प्रकार का कोई सौदा न करें। संपत्ति के साथ किसी प्रकार का सौदा उनके नामों के सामने दी गई धनराशि और आगे उस पर भावी ब्याज एवं प्रभारों के साथ आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को भुगतान किए जाने के अधीन किया हुआ रहेगा।</p>					
क्र.सं.	ऋणी/सह-ऋणी/जमानतदाता और संपत्ति के मालिक का नाम	मांग सूचना पत्र की तिथि	प्रतीकात्मक कब्जा की तिथि	गिरवी रखी संपत्ति का विवरण	धारा 13(2) के अधीन सूचना में वर्णित अनुश्रा वक्राया राशि
1.	अखिलेश कुमार सिंह	12.08.2021	25.02.2022	ब्रून्ट नं. आर 2005, 20वीं मंजिल, टावर आर, प्लॉट नं. जीएच-01, सेक्टर 70, पैन ओएसिस, नोएडा-उ.प्र.	रु.68,26,012/- (रुपये अड़सठ लाख छब्बीस हजार बारह मात्र) दिनांक 10.04.2021 के अनुसार और साथ में इस पर भावी ब्याज एवं कानूनी व्यय।
2.	वेदपाल सिंह	31.08.2021	25.02.2022	फ्लैट नं. टी4-2208, 22वीं मंजिल, ब्लॉक-बी, बुनिबरा टावर, प्लॉट नं. जीएच-16 एफ, सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	रु.34,83,113/- (रुपये चौतीस लाख तिरासी हजार एक सौ तेरह मात्र) दिनांक 19.03.2020 के अनुसार और साथ में इस पर भावी ब्याज एवं कानूनी व्यय।
3.	प्रदीप कुमार सिंह	12.08.2021	25.02.2022	फ्लैट नं. टी1-2002, 20वीं मंजिल, ब्लॉक-ई, बुनिबरा टावर, प्लॉट नं. जीएच-16 एफ, सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	रु.38,46,946/- (रुपये अड़तीस लाख छियासी हजार नौ सौ छियालीस मात्र) दिनांक 19.03.2021 के अनुसार और साथ में इस पर भावी ब्याज एवं कानूनी व्यय।
4.	सुनील कुमार	31.08.2021	25.02.2022	फ्लैट नं. टी4-2015, 21वीं मंजिल, ब्लॉक-बी, बुनिबरा टावर, प्लॉट नं. जीएच-16 एफ, सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	रु.32,35,002/- (रुपये बत्तीस लाख पैंतीस हजार दो मात्र) दिनांक 31.03.2021 के अनुसार और साथ में इस पर भावी ब्याज एवं कानूनी व्यय।
5.	श्री हरिश चंद्र सिंह एवं श्रीमती सुधा संत प्रसाद सिंह	07.10.2021	25.02.2022	फ्लैट नं. 502, 5वीं मंजिल, टावर ट्रान्स (सी) रिदम, काउंटी, प्लॉट नं. जीएच-16 ई, सेक्टर-01, जीआर. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201306	रु.31,28,220/- (रुपये इकतीस लाख अट्ठाईस हजार दो सौ बीस मात्र) दिनांक 31.08.2021 के अनुसार और साथ में इस पर भावी ब्याज एवं कानूनी व्यय।
6.	श्री अमित झाकर	10.07.2021	25.02.2022	फ्लैट नं. 2102, 21वीं मंजिल, टावर जैज (बी), रिदम काउंटी, प्लॉट नं. जीएच-16 ई, सेक्टर-01, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201308	रु.33,20,663/- (रुपये तैंतीस लाख बीस हजार छह सौ तिरसठ मात्र) दिनांक 31.08.2021 के अनुसार और साथ में इस पर भावी ब्याज एवं कानूनी व्यय।
7.	श्री नवीन गौड़ एवं श्रीमती चित्रेश कुमार गौड़	10.08.2021	25.02.2022	फ्लैट नं. 506, 5वीं मंजिल, स्कॉर्ड टेक मेरियन रेसिडेंसी, फेज-1, जीएच-06, क्रॉसिंग रिपब्लिक टाउनशिप, एनएच-24, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012	रु.24,70,691/- (रुपये चौबीस लाख सत्तर हजार छह सौ इक्कानबे मात्र) दिनांक 09/09/2021 के अनुसार और साथ में इस पर भावी ब्याज एवं कानूनी व्यय।
8.	श्री राजीव कुमार एवं श्रीमती वंदना	22.09.2021	25.02.2022	फ्लैट नं. -006, जी.एफ., टावर मैपल पैरामाउंट सिम्फोनी, क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201016	रु.25,79,510/- (रुपये पच्चीस लाख उन्यासी हजार पाँच सौ दस मात्र) दिनांक 09/09/2021 के अनुसार और साथ में इस पर भावी ब्याज एवं कानूनी व्यय।
9.	श्री प्रवीण कुमार एवं श्रीमती रीमा कुमार	26.10.2021	25.02.2022	प्लॉट नं.-24, शक्ति खण्ड-3, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010	रु.4,06,926/- (रुपये चार लाख छह हजार नौ सौ छब्बीस मात्र) दिनांक 31.08.2021 के अनुसार और साथ में इस पर भावी ब्याज एवं कानूनी व्यय।
निधि : 02.03.2022 स्थान : नई दिल्ली					हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लि.

तिथि : 02.03.2022

स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लि.

CONSOLIDATED FINVEST & HOLDINGS LIMITED									
Corporate Identification Number (CIN): L33200UP1993PLC015474									
Registered Office: 19 th K.M. Hapur Bulandshahr Road P.O. Gulaathi Bulandshahr Uttar Pradesh - 203 408									
Corporate Office: Plot No. 12, Sector B - 1, Local Shopping Complex Vasant Kunj, New Delhi - 110 070									
Phone No.: +91 11 4032 2100, Website: www.consofinvest.com, Email: cs_cfh@jindalgroup.com									
Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Consolidated Finvest & Holdings Limited (the "Company"), on the Delisting Offer made by Soyuz Trading Company Limited (the "Acquirer") along with other Promoters and Promoter Group persons / entities to the public shareholders of the Company under Regulation 28 of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, as amended (the "SEBI Delisting Regulations").									
1. Date of meeting of IDC	March 01, 2022								
2. Name of the Company	Consolidated Finvest & Holdings Limited								
3. Details of the Delisting Offer pertaining to the Company	Voluntary Delisting Offer made by the Acquirer, along with members of promoter and promoter group, is making this Offer to acquire 92,01,602 Equity Shares representing 28.47% of the paid-up capital of the Company from the Public Shareholders from National Stock Exchange of India Limited (NSE) pursuant to Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 ("SEBI Delisting Regulations") Floor Price: Rs. 152.64 per Equity Share Indicative Price: Rs. 153.00 per Equity Share The IDC also reviewed the following: Initial Public Announcement dated December 01, 2021 ("the "IPA" "); Detailed Public Announcement published on February 22, 2022 (the "DPA"); Letter of Offer dated February 22, 2022 (the "LOF"); and Corrigendum to the Detailed Public Announcement and LOF published on February 25, 2022 ("Corrigendum")								
4. Name of the Acquirer and PAC with the acquirer	Soyuz Trading Company Limited, alongwith the Promoter and Promoter Group of Consolidated Finvest & Holdings Limited								
5. Name of the Manager to the Offer	Sundae Capital Advisors Private Limited SEBI Regn. No.: INM000012494 Level 9, Platina, Plot No C - 59, 'G' Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051, Maharashtra, India Tel. No. +91 22 6700 0639 Email: cfhl.delisting@sundaecapital.com Investor Grievance e-mail id: grievances.mb@sundaecapital.com Website: www.sundaecapital.com								
6. Members of the Committee of Independent Directors	<table><tr><th>Name of the Independent Directors</th><th>Position in Committee</th></tr><tr><td>Mr. Prakash Malai</td><td>Chairperson</td></tr><tr><td>Mr. Radhey Shyam</td><td>Member</td></tr><tr><td>Mr. Sanjeev Aggarwal</td><td>Member</td></tr></table>	Name of the Independent Directors	Position in Committee	Mr. Prakash Malai	Chairperson	Mr. Radhey Shyam	Member	Mr. Sanjeev Aggarwal	Member
Name of the Independent Directors	Position in Committee								
Mr. Prakash Malai	Chairperson								
Mr. Radhey Shyam	Member								
Mr. Sanjeev Aggarwal	Member								
7. IDC Member's relationship with the Company (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	The members of the IDC are Independent Directors on the Board of Directors of the Company. Except Mr. Radhey Shyam, who holds 100 Equity Shares in the Company, none of the members of the IDC hold any Equity Shares in the Company. Further, none of the Members of the IDC have entered into any contract or any relationship with the Company.								
8. Trading in the Equity shares/other securities of the Company by IDC Members	None of the members of IDC have traded in any of the Equity Shares/other securities of the Company during the twelve months period preceding the date of the IPA. None of the members of the IDC have traded in any of the Equity Shares / Securities of the Company during the period from the date of the IPA and till the date of this recommendation.								
9. IDC Member's relationship with the Acquirer	a. Mr. Prakash Malai is not a director on the board of the Acquirer. b. Mr. Radhey Shyam and Mr. Sanjeev Aggarwal, are also independent directors on the Board of the Acquirer. However, in the meeting of the Board of Directors of the Acquirer held on December 01, 2021 to consider proposal for delisting of equity shares of the Company, Mr. Radhey Shyam and Mr. Sanjeev Aggarwal, also being directors on the Board of Consolidated Finvest & Holdings Limited, whose shares are proposed to be acquired, abstained from participation and voting in the said agenda pertaining to acquisition of equity shares of Consolidated Finvest & Holdings Limited, in pursuance to the Delisting Offer; c. None of the members of IDC holds any equity shares or other securities of the Acquirer; d. Except the directorship as above, none of the members of IDC has any contracts/ relationship with the Acquirer.								
10. Trading in the Equity shares/other securities of the Acquirer by IDC Members	Not applicable as the Equity shares/other securities of the Acquirer are not listed on any of the stock exchanges in India and abroad.								
11. Recommendation on the Delisting offer, as to whether the offer is fair and reasonable	Based on the review of the IPA, DPA, LOF and Corrigendum issued by the Manager to the Delisting Offer on behalf of Acquirer and Certificate from Mr. Rajesh Mittal (ICAI Membership No. 072139), Partner, MGK & Associates, Chartered Accountants, (Firm Registration No.: 006359N), dated December 13, 2021 (UDIN: 21072139AAAAB7415), the members of IDC believe that the Delisting Offer is in accordance with the SEBI Delisting Regulations and to that extent, is fair and reasonable.								
12. Summary of reasons for recommendation	Based on the review of the IPA, DPA and LOF and Corrigendum issued by the Manager to the Offer on behalf of Acquirer, the members of IDC have considered the following reasons provided by the Acquirer in the IPA for making recommendations: The Indicative Price of Rs. 153 is higher than the volume weighted average price of the Equity Shares of the Company during the period of 60 trading days immediately preceding the date of the Board Meeting in which the delisting proposal was considered and approved. The IDC, however, suggests that Public Shareholders of the Company should independently evaluate the Delisting Offer, market performance of the Company and take informed decisions in respect of the Delisting Offer. The market price of the Company Scrip has been trading at a premium to the floor price and indicative price since last few trading days. This statement of recommendations will be available on the website of the Company at www.consofinvest.com .								
14. Disclosure of the Voting Pattern	The recommendations were unanimously approved by the members of IDC								
15. Details of Independent Advisors, if any.	None								
16. Any other matter(s) to be highlighted	None								
To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise and includes all the information required to be disclosed by the Company under the SEBI Delisting Regulations.									
For and on behalf of the Committee of Independent Directors of Consolidated Finvest & Holdings Limited									
Sd/-									
Prakash Malai									
Chairperson									
Place: New Delhi									
Date : March 01, 2022									

